



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1983/चैत्र 3, 1905
No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 1983/CHAITRA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1983

का० जा० 207(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के अनुरोध पर 24 मार्च, 1983 से उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहापुर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1(34)/82-आर०आर०बी० (I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd March, 1983

S.O. 207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government on being requested so to do by Bank of Baroda, establishes with effect from

1500 GI/82

the 24th March, 1983 a Regional Rural Bank in the State of Uttar Pradesh under the name of Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the district of Shahjahanpur in the State of Uttar Pradesh.

[No. F 1(34)/82-RRB(I)]

का०जा० 208(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक आफ बड़ौदा से परामर्श करके, शाहजहापुर की उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है जहाँ पर शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1(34)/82-आर०आर०बी० (II)]

S.O. 208(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and Bank of Baroda, by which Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Shahjahanpur as the place where Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1(34)/82-RRB(II)]

का०जा० 209(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (III) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहापुर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा

3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक 1-34/82-आर० आर०बी० (III)]

बी०के० दीक्षित, संयुक्त सचिव

S.O. 209(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies for the purpose of the said sub-clause, Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank, Shahjahanpur being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-34/82-RRB(III)]
V. K. DIKSHIT, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1983

का०आ० 210(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री अनिरुद्ध पाण्डेय को शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाहजहापुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 24-3-1983 से प्रारम्भ होकर 31-3-1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री अनिरुद्ध पाण्डेय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 1(34)/82-आर०आर०बी० (IV)]

राम बेहरा, अपर सचिव

New Delhi, the 23rd March, 1983

S.O. 210(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Anirudh Pandey as Chairman of the Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank, Shahjahanpur and specifies the period commencing on the 24-3-1983 and ending with the 31-3-1986

as the period for which the said Shri Anirudh Pandey shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1(34)/82-RRB(IV)]
RAAM BEHRA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष बम्बई

अधिसूचना

बम्बई, 24 मार्च, 1983

का०आ० 211(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:—

“शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहापुर (उत्तर प्रदेश)”

[आर०पी०सी०डी० संख्या 254/आई०एन०सी० एल०/311-83]
एच०बी० शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT
BOMBAY

NOTIFICATION

Bombay, the 24th March, 1983

S.O. 211(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Regional Rural Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

“Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank, Shahjahanpur, (U.P.)”

[RPCD. No. 254/INCL/311-83]
H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director